



Ref: SEC/SE/2024-25  
Date: January 13, 2025

To,  
Corporate Relations Department  
**BSE Ltd.**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street,  
Mumbai- 400001

Listing Department  
**National Stock Exchange of India Ltd.**  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor  
Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai – 400051

BSE Scrip Code: 500096

NSE Scrip Symbol: DABUR

**Sub: Publication of newspaper notice for loss of share certificates**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies each of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 13.01.2025 in which notice for intimation of loss of share certificates of the shareholders of the Company have been published.

Submitted for your kind information and records.

Thanking you,

Yours faithfully  
For **Dabur India Limited**

**(Saket Gupta)**  
**Company Secretary and Compliance Officer**

Encl: as above

# Govt to review Jan Dhan and other schemes

FE BUREAU New Delhi, January 12

**FINANCIAL SERVICES SECRETARY M Nagaraj** is set to meet the heads of Public Sector Banks (PSBs) on Wednesday to assess the progress of key financial inclusion schemes.

The review meeting will focus on schemes like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PM-SBY).

The total balance in no-frills PMJDY accounts reached ₹2.43 lakh crore as of January 1. Initially seen as a mechanism to channel government benefits, these accounts have also emerged as a significant source of low-cost funds for PSBs.

PMJJBY provides life insurance coverage of ₹2 lakh for individuals aged 18-50 with a bank or post office account. Coverage applies in case of death due to any reason, with enrollment requiring consent and auto-debit of premiums.

On the other hand, the PM-SBY offers ₹2 lakh for accidental death or total and permanent disability and ₹1 lakh for partial permanent disability. It is available to individuals aged 18-70, with similar enrollment criteria.

The Stand-Up India Scheme, launched on April 5, 2016, to promote economic empowerment and job creation, has been extended until 2025. The initiative mandates all bank

## TAKING STOCK



■ The review meeting will focus on schemes like PMJDY, PMJJBY and PM-SBY

■ The total balance in no-frills PMJDY accounts reached ₹2.43 lakh cr as of Jan 1

■ These accounts have also emerged as a significant source of low-cost funds for PSBs

■ The Stand-Up India Scheme, launched on April 5, 2016, to promote economic empowerment and job creation, has been extended until 2025. The initiative mandates all bank

# Trump 2.0, AI to influence global trade: Experts

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 12

**GEOPOLITICAL TENSIONS.** The potential for a renewed US-led trade war under President-elect Donald Trump, rising sustainability-driven barriers, China's overcapacity in key sectors, and rapid advancements in AI will significantly impact global trade in 2025, according to experts.

They said Indian exporters and importers should work hand in hand with the government to deal with these challenges. In India, they said, needs to prioritise their AI (artificial intelligence) strategy as it promises to transform trade logistics and supply chain management and reshape traditional trade patterns.

The government also approved the continuation of the Prime Minister Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) scheme until June 2024. Launched in December 2020 as a response to the Covid-19 pandemic, PM SVANidhi provides affordable, collateral-free micro-loans to street vendors, enabling them to recover from pandemic-related losses.

## TRADE OUTLOOK



■ Indian traders should work with government to deal with challenges

■ Indian businesses need to prioritise their AI strategy, according to experts

■ Businesses need to invest resources to comply with sustainability parameters

digital transformation is poised to boost not only services trade, but it may also create newer categories of tradable AI-powered goods—from autonomous vehicles and robotics and beyond, trade expert and Hi-Tech Gears chairman Deep Kapuria said.

He said while geopolitical tensions are beyond the competency of the private sector to influence, businesses from the developing world need to invest

# Coal import rises 2% to 182 MT in April-Nov

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 12

**INDIA'S COAL IMPORT** rose by 2% to 182.02 million tonnes (MT) in April-November period of the current fiscal year.

The country's coal import was at 178.17 MT in the year ago period, according to data compiled by business-to-business commerce company junction services.

However, the country's coal import dropped to 19.57 MT in the month of November, over 22.30 MT in the corresponding month of the previous fiscal.

"There was a drop in volumes, which was in line with market expectation. Ample availability in the domestic market reduced import demand from consuming sectors such as sponge iron and steel. Also, the comfortable stock position at power plants resulted in muted demand for imports," junction MD and CEO Vinaya Varma said.

This trend is likely to continue in the coming months, he said. During April-November 2024, non-cooking coal import was at 117.73 MT, lower than 118 MT imported during the same period last year.

# Bangladesh expresses concern over border tension

PRESS TRUST OF INDIA Dhaka, January 12

**BANGLADESH FOREIGN SECRETARY** Md Jashim Uddin on Sunday expressed Bangladesh's "deep concern" over the recent border tensions during a meeting with Indian High Commissioner to Dhaka.

The state-run BSS news agency earlier reported that Verma was "summoned" by the foreign ministry to discuss escalating tensions along the border. However, a press statement issued by the foreign ministry did not use that term.

"Foreign Secretary Ambassador Md Jashim Uddin today expressed deep concern over the expansion of Bangladesh to the High Commissioner of India Pranay Verma at his office at the ministry of foreign Affairs over the recent activities of the Border Security Force (BSF) of India along the Bangladesh-India border," the foreign ministry said in the statement.

Verma entered the foreign ministry around 3:00 pm (local time). His meeting with the foreign secretary lasted about 45 minutes, BSS reported.

It was just met foreign secretary to discuss India's commitment to ensuring a crime-free border, effectively addressing challenges of smuggling, movement of criminals and trafficking," Verma told the media after emerging from the meeting.

# ESONTEC TECHNOLOGIES LIMITED

FORNEX (Formerly Eson Technologies Private Limited)

**NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION.** Eson Technologies Limited ("the Company") will be holding an Extraordinary General Meeting ("EGM") of Members of Eson Technologies Limited ("the Company") on Wednesday, 13th January 2025 at 03:00 PM (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in the Notice convening the EGM of the Company ("Notice of EGM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act 2013 read with Rules framed thereunder and Circulars issued by SEBI in this regard.

The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company (i.e., D-147, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020). The attendees of the members attending through VCOAVM shall be counted for the purpose of reckoning the Quorum at the meeting.

The Company has sent the Notice of EGM, through electronic mode (i.e. email) to the shareholders whose e-mail addresses were registered with the Company/Skyline Financial Services Private Limited. Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participants as on Saturday, 11th January 2025 in accordance with Section 10, Section 10A, Section 10B, Section 10C, Section 10D, Section 10E, Section 10F, Section 10G, Section 10H, Section 10I, Section 10J, Section 10K, Section 10L, Section 10M, Section 10N, Section 10O, Section 10P, Section 10Q, Section 10R, Section 10S, Section 10T, Section 10U, Section 10V, Section 10W, Section 10X, Section 10Y, Section 10Z, Section 10AA, Section 10AB, Section 10AC, Section 10AD, Section 10AE, Section 10AF, Section 10AG, Section 10AH, Section 10AI, Section 10AJ, Section 10AK, Section 10AL, Section 10AM, Section 10AN, Section 10AO, Section 10AP, Section 10AQ, Section 10AR, Section 10AS, Section 10AT, Section 10AU, Section 10AV, Section 10AW, Section 10AX, Section 10AY, Section 10AZ, Section 10BA, Section 10BB, Section 10BC, Section 10BD, Section 10BE, Section 10BF, Section 10BG, Section 10BH, Section 10BI, Section 10BJ, Section 10BK, Section 10BL, Section 10BM, Section 10BN, Section 10BO, Section 10BP, Section 10BQ, Section 10BR, Section 10BS, Section 10BT, Section 10BU, Section 10BV, Section 10BW, Section 10BX, Section 10BY, Section 10BZ, Section 10CA, Section 10CB, Section 10CC, Section 10CD, Section 10CE, Section 10CF, Section 10CG, Section 10CH, Section 10CI, Section 10CJ, Section 10CK, Section 10CL, Section 10CM, Section 10CN, Section 10CO, Section 10CP, Section 10CQ, Section 10CR, Section 10CS, Section 10CT, Section 10CU, Section 10CV, Section 10CW, Section 10CX, Section 10CY, Section 10CZ, Section 10DA, Section 10DB, Section 10DC, Section 10DD, Section 10DE, Section 10DF, Section 10DG, Section 10DH, Section 10DI, Section 10DJ, Section 10DK, Section 10DL, Section 10DM, Section 10DN, Section 10DO, Section 10DP, Section 10DQ, Section 10DR, Section 10DS, Section 10DT, Section 10DU, Section 10DV, Section 10DW, Section 10DX, Section 10DY, Section 10DZ, Section 10EA, Section 10EB, Section 10EC, Section 10ED, Section 10EE, Section 10EF, Section 10EG, Section 10EH, Section 10EI, Section 10EJ, Section 10EK, Section 10EL, Section 10EM, Section 10EN, Section 10EO, Section 10EP, Section 10EQ, Section 10ER, Section 10ES, Section 10ET, Section 10EU, Section 10EV, Section 10EW, Section 10EX, Section 10EY, Section 10EZ, Section 10FA, Section 10FB, Section 10FC, Section 10FD, Section 10FE, Section 10FF, Section 10FG, Section 10FH, Section 10FI, Section 10FJ, Section 10FK, Section 10FL, Section 10FM, Section 10FN, Section 10FO, Section 10FP, Section 10FQ, Section 10FR, Section 10FS, Section 10FT, Section 10FU, Section 10FV, Section 10FW, Section 10FX, Section 10FY, Section 10FZ, Section 10GA, Section 10GB, Section 10GC, Section 10GD, Section 10GE, Section 10GF, Section 10GG, Section 10GH, Section 10GI, Section 10GJ, Section 10GK, Section 10GL, Section 10GM, Section 10GN, Section 10GO, Section 10GP, Section 10GQ, Section 10GR, Section 10GS, Section 10GT, Section 10GU, Section 10GV, Section 10GW, Section 10GX, Section 10GY, Section 10GZ, Section 10HA, Section 10HB, Section 10HC, Section 10HD, Section 10HE, Section 10HF, Section 10HG, Section 10HH, Section 10HI, Section 10HJ, Section 10HK, Section 10HL, Section 10HM, Section 10HN, Section 10HO, Section 10HP, Section 10HQ, Section 10HR, Section 10HS, Section 10HT, Section 10HU, Section 10HV, Section 10HW, Section 10HX, Section 10HY, Section 10HZ, Section 10IA, Section 10IB, Section 10IC, Section 10ID, Section 10IE, Section 10IF, Section 10IG, Section 10IH, Section 10II, Section 10IJ, Section 10IK, Section 10IL, Section 10IM, Section 10IN, Section 10IO, Section 10IP, Section 10IQ, Section 10IR, Section 10IS, Section 10IT, Section 10IU, Section 10IV, Section 10IW, Section 10IX, Section 10IY, Section 10IZ, Section 10JA, Section 10JB, Section 10JC, Section 10JD, Section 10JE, Section 10JF, Section 10JG, Section 10JH, Section 10JI, Section 10JJ, Section 10JK, Section 10JL, Section 10JM, Section 10JN, Section 10JO, Section 10JP, Section 10JQ, Section 10JR, Section 10JS, Section 10JT, Section 10JU, Section 10JV, Section 10JW, Section 10JX, Section 10JY, Section 10JZ, Section 10KA, Section 10KB, Section 10KC, Section 10KD, Section 10KE, Section 10KF, Section 10KG, Section 10KH, Section 10KI, Section 10KJ, Section 10KL, Section 10KM, Section 10KN, Section 10KO, Section 10KP, Section 10KQ, Section 10KR, Section 10KS, Section 10KT, Section 10KU, Section 10KV, Section 10KW, Section 10KX, Section 10KY, Section 10KZ, Section 10LA, Section 10LB, Section 10LC, Section 10LD, Section 10LE, Section 10LF, Section 10LG, Section 10LH, Section 10LI, Section 10LJ, Section 10LK, Section 10LL, Section 10LM, Section 10LN, Section 10LO, Section 10LP, Section 10LQ, Section 10LR, Section 10LS, Section 10LT, Section 10LU, Section 10LV, Section 10LW, Section 10LX, Section 10LY, Section 10LZ, Section 10MA, Section 10MB, Section 10MC, Section 10MD, Section 10ME, Section 10MF, Section 10MG, Section 10MH, Section 10MI, Section 10MJ, Section 10MK, Section 10ML, Section 10MN, Section 10MO, Section 10MP, Section 10MQ, Section 10MR, Section 10MS, Section 10MT, Section 10MU, Section 10MV, Section 10MW, Section 10MX, Section 10MY, Section 10MZ, Section 10NA, Section 10NB, Section 10NC, Section 10ND, Section 10NE, Section 10NF, Section 10NG, Section 10NH, Section 10NI, Section 10NJ, Section 10NK, Section 10NL, Section 10NM, Section 10NO, Section 10NP, Section 10NQ, Section 10NR, Section 10NS, Section 10NT, Section 10NU, Section 10NV, Section 10NW, Section 10NX, Section 10NY, Section 10NZ, Section 10OA, Section 10OB, Section 10OC, Section 10OD, Section 10OE, Section 10OF, Section 10OG, Section 10OH, Section 10OI, Section 10OJ, Section 10OK, Section 10OL, Section 10OM, Section 10ON, Section 10OO, Section 10OP, Section 10OQ, Section 10OR, Section 10OS, Section 10OT, Section 10OU, Section 10OV, Section 10OW, Section 10OX, Section 10OY, Section 10OZ, Section 10PA, Section 10PB, Section 10PC, Section 10PD, Section 10PE, Section 10PF, Section 10PG, Section 10PH, Section 10PI, Section 10PJ, Section 10PK, Section 10PL, Section 10PM, Section 10PN, Section 10PO, Section 10PP, Section 10PQ, Section 10PR, Section 10PS, Section 10PT, Section 10PU, Section 10PV, Section 10PW, Section 10PX, Section 10PY, Section 10PZ, Section 10QA, Section 10QB, Section 10QC, Section 10QD, Section 10QE, Section 10QF, Section 10QG, Section 10QH, Section 10QI, Section 10QJ, Section 10QK, Section 10QL, Section 10QM, Section 10QN, Section 10QO, Section 10QP, Section 10QQ, Section 10QR, Section 10QS, Section 10QT, Section 10QU, Section 10QV, Section 10QW, Section 10QX, Section 10QY, Section 10QZ, Section 10RA, Section 10RB, Section 10RC, Section 10RD, Section 10RE, Section 10RF, Section 10RG, Section 10RH, Section 10RI, Section 10RJ, Section 10RK, Section 10RL, Section 10RM, Section 10RN, Section 10RO, Section 10RP, Section 10RQ, Section 10RR, Section 10RS, Section 10RT, Section 10RU, Section 10RV, Section 10RW, Section 10RX, Section 10RY, Section 10RZ, Section 10SA, Section 10SB, Section 10SC, Section 10SD, Section 10SE, Section 10SF, Section 10SG, Section 10SH, Section 10SI, Section 10SJ, Section 10SK, Section 10SL, Section 10SM, Section 10SN, Section 10SO, Section 10SP, Section 10SQ, Section 10SR, Section 10SS, Section 10ST, Section 10SU, Section 10SV, Section 10SW, Section 10SX, Section 10SY, Section 10SZ, Section 10TA, Section 10TB, Section 10TC, Section 10TD, Section 10TE, Section 10TF, Section 10TG, Section 10TH, Section 10TI, Section 10TJ, Section 10TK, Section 10TL, Section 10TM, Section 10TN, Section 10TO, Section 10TP, Section 10TQ, Section 10TR, Section 10TS, Section 10TT, Section 10TU, Section 10TV, Section 10TW, Section 10TX, Section 10TY, Section 10TZ, Section 10UA, Section 10UB, Section 10UC, Section 10UD, Section 10UE, Section 10UF, Section 10UG, Section 10UH, Section 10UI, Section 10UJ, Section 10UK, Section 10UL, Section 10UM, Section 10UN, Section 10UO, Section 10UP, Section 10UQ, Section 10UR, Section 10US, Section 10UT, Section 10UU, Section 10UV, Section 10UW, Section 10UX, Section 10UY, Section 10UZ, Section 10VA, Section 10VB, Section 10VC, Section 10VD, Section 10VE, Section 10VF, Section 10VG, Section 10VH, Section 10VI, Section 10VJ, Section 10VK, Section 10VL, Section 10VM, Section 10VN, Section 10VO, Section 10VP, Section 10VQ, Section 10VR, Section 10VS, Section 10VT, Section 10VU, Section 10VV, Section 10VW, Section 10VX, Section 10VY, Section 10VZ, Section 10WA, Section 10WB, Section 10WC, Section 10WD, Section 10WE, Section 10WF, Section 10WG, Section 10WH, Section 10WI, Section 10WJ, Section 10WK, Section 10WL, Section 10WM, Section 10WN, Section 10WO, Section 10WP, Section 10WQ, Section 10WR, Section 10WS, Section 10WT, Section 10WU, Section 10WV, Section 10WW, Section 10WX, Section 10WY, Section 10WZ, Section 10XA, Section 10XB, Section 10XC, Section 10XD, Section 10XE, Section 10XF, Section 10XG, Section 10XH, Section 10XI, Section 10XJ, Section 10XK, Section 10XL, Section 10XM, Section 10XN, Section 10XO, Section 10XP, Section 10XQ, Section 10XR, Section 10XS, Section 10XT, Section 10XU, Section 10XV, Section 10XW, Section 10XX, Section 10XY, Section 10XZ, Section 10YA, Section 10YB, Section 10YC, Section 10YD, Section 10YE, Section 10YF, Section 10YG, Section 10YH, Section 10YI, Section 10YJ, Section 10YK, Section 10YL, Section 10YM, Section 10YN, Section 10YO, Section 10YP, Section 10YQ, Section 10YR, Section 10YS, Section 10YT, Section 10YU, Section 10YV, Section 10YW, Section 10YX, Section 10YZ, Section 10ZA, Section 10ZB, Section 10ZC, Section 10ZD, Section 10ZE, Section 10ZF, Section 10ZG, Section 10ZH, Section 10ZI, Section 10ZJ, Section 10ZK, Section 10ZL, Section 10ZM, Section 10ZN, Section 10ZO, Section 10ZP, Section 10ZQ, Section 10ZR, Section 10ZS, Section 10ZT, Section 10ZU, Section 10ZV, Section 10ZW, Section 10ZX, Section 10ZY, Section 10ZZ

■ The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company (i.e., D-147, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020). The attendees of the members attending through VCOAVM shall be counted for the purpose of reckoning the Quorum at the meeting.

The Company has sent the Notice of EGM, through electronic mode (i.e. email) to the shareholders whose e-mail addresses were registered with the Company/Skyline Financial Services Private Limited. Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participants as on Saturday, 11th January 2025 in accordance with Section 10, Section 10A, Section 10B, Section 10C, Section 10D, Section 10E, Section 10F, Section 10G, Section 10H, Section 10I, Section 10J, Section 10K, Section 10L, Section 10M, Section 10N, Section 10O, Section 10P, Section 10Q, Section 10R, Section 10S, Section 10T, Section 10U, Section 10V, Section 10W, Section 10X, Section 10Y, Section 10Z, Section 10AA, Section 10AB, Section 10AC, Section 10AD, Section 10AE, Section 10AF, Section 10AG, Section 10AH, Section 10AI, Section 10AJ, Section 10AK, Section 10AL, Section 10AM, Section 10AN, Section 10AO, Section 10AP, Section 10AQ, Section 10AR, Section 10AS, Section 10AT, Section 10AU, Section 10AV, Section 10AW, Section 10AX, Section 10AY, Section 10AZ, Section 10BA, Section 10BB, Section 10BC, Section 10BD, Section 10BE, Section 10BF, Section 10BG, Section 10BH, Section 10BI, Section 10BJ, Section 10BK, Section 10BL, Section 10BM, Section 10BN, Section 10BO, Section 10BP, Section 10BQ, Section 10BR, Section 10BS, Section 10BT, Section 10BU, Section 10BV, Section 10BW, Section 10BX, Section 10BY, Section 10BZ, Section 10CA, Section 10CB, Section 10CC, Section 10CD, Section 10CE, Section 10CF, Section 10CG, Section 10CH, Section 10CI, Section 10CJ, Section 10CK, Section 10CL, Section 10CM, Section 10CN, Section 10CO, Section 10CP, Section 10CQ, Section 10CR, Section 10CS, Section 10CT, Section 10CU, Section 10CV, Section 10CW, Section 10CX, Section 10CY, Section 10CZ, Section 10DA, Section 10DB, Section 10DC, Section 10DD, Section 10DE, Section 10DF, Section 10DG, Section 10DH, Section 10DI, Section 10DJ, Section 10DK, Section 10DL, Section 10DM, Section 10DN, Section 10DO, Section 10DP, Section 10DQ, Section 10DR, Section 10DS, Section 10DT, Section 10DU, Section 10DV, Section 10DW, Section 10DX, Section 10DY, Section 10DZ, Section 10EA, Section 10EB, Section 10EC, Section 10ED, Section 10EE, Section 10EF, Section 10EG, Section 10EH, Section 10EI, Section 10EJ, Section 10EK, Section 10EL, Section 10EM, Section 10EN, Section 10EO, Section 10EP, Section 10EQ, Section 10ER, Section 10ES, Section 10ET, Section 10EU, Section 10EV, Section 10EW, Section 10EX, Section 10EY, Section 10EZ, Section 10FA, Section 10FB, Section 10FC, Section 10FD, Section 10FE, Section 10FG, Section 10FH, Section 10FI, Section 10FJ, Section 10FK, Section 10FL, Section 10FM, Section 10FN, Section 10FO, Section 10FP, Section 10FQ, Section 10FR, Section 10FS, Section 10FT, Section 10FU, Section 10FV, Section 10FW, Section 10FX, Section 10FY, Section 10FZ, Section 10GA, Section 10GB, Section 10GC, Section 10GD, Section 10GE, Section 10GF, Section 10GG, Section 10GH, Section 10GI, Section 10GJ, Section 10GK, Section 10GL, Section 10GM, Section 10GN, Section 10GO, Section 10GP, Section 10GQ, Section 10GR, Section 10GS, Section 10GT, Section 10GU, Section 10GV, Section 10GW, Section 10GX, Section 10GY, Section 10GZ, Section 10HA, Section 10HB, Section 10HC, Section 10HD, Section 10HE, Section 10HF, Section 10HG, Section 10HH, Section 10HI, Section 10HJ, Section 10HK, Section 10HL, Section 10HM, Section 10HN, Section 10HO, Section 10HP, Section 10HQ, Section 10HR, Section 10HS, Section 10HT, Section 10HU, Section 10HV, Section 10HW, Section 10HX, Section 10HY, Section 10HZ, Section 10IA, Section 10IB, Section 10IC, Section 10ID, Section 10IE, Section 10IF, Section 10IG, Section 10IH, Section 10II, Section 10IJ, Section 10IK, Section 10IL, Section 10IM, Section 10IN, Section 10IO, Section 10IP, Section 10IQ, Section 10IR, Section 10IS, Section 10IT, Section 10IU, Section 10IV, Section 10IW, Section 10IX, Section 10IY, Section 10IZ, Section 10JA, Section 10JB, Section 10JC, Section 10JD, Section 10JE, Section 10JF, Section 10JG, Section 10JH, Section 10JI, Section 10JJ, Section 10JK, Section 10JL, Section 10JM, Section 10JN, Section 10JO, Section 10JP, Section 10JQ, Section 10JR, Section 10JS, Section 10JT, Section 10JU, Section 10JV, Section 10JW, Section 10JX, Section 10JY, Section 10JZ, Section 10KA, Section 10KB, Section 10KC, Section 10KD, Section 10KE, Section 10KF, Section 10KG, Section 10KH, Section 10KI, Section 10KJ, Section 10KL, Section 10KM, Section 10KN, Section 10KO, Section 10KP, Section 10KQ, Section 10KR, Section 10KS, Section 10KT, Section 10KU, Section 10KV, Section 10KW, Section 10KX, Section 10KY, Section 10KZ, Section 10LA, Section 10LB, Section 10LC, Section 10LD, Section 10LE, Section 10LF, Section 10LG, Section 10LH, Section 10LI, Section 10LJ, Section 10LK, Section 10LM, Section 10LN, Section 10LO, Section 10LP, Section 10LQ, Section 10LR, Section 10LS, Section 10LT, Section 10LU, Section 10LV, Section 10LW, Section 10LX, Section 10LY, Section 10LZ, Section 10MA, Section 10MB, Section 10MC, Section 10MD, Section 10ME, Section 10MF, Section 10MG, Section 10MH, Section 10MI, Section 10MJ, Section 10MK, Section 10ML, Section 10MN, Section 10MO, Section 10MP, Section 10MQ, Section 10MR, Section 10MS, Section 10MT, Section 10MU, Section 10MV, Section 10MW, Section 10MX, Section 10MY, Section 10MZ, Section 10NA, Section 10NB, Section 10NC, Section 10ND, Section 10NE, Section 10NF, Section 10NG, Section 10NH, Section 10NI, Section 10NJ, Section 10NK, Section 10NL, Section 10NM, Section 10NO, Section 10NP, Section 10NQ, Section 10NR, Section 10NS, Section 10NT, Section 10NU, Section 10NV, Section 10NW, Section 10NX, Section 10NY, Section 10NZ, Section 10OA, Section 10OB, Section 10OC, Section 10OD, Section 10OE, Section 10OF, Section 10OG, Section 10OH, Section 10OI, Section 10OJ, Section 10OK, Section 10OL, Section 10OM, Section 10ON, Section 10OO, Section 10OP, Section 10OQ, Section 10OR, Section 10OS, Section 10OT, Section 10OU, Section 10OV, Section 10OW, Section 10OX, Section 10OY, Section 10OZ, Section 10PA, Section 10PB, Section 10PC, Section 10PD, Section 10PE, Section 10PF, Section 10PG, Section 10PH, Section 10PI, Section 10PJ, Section 10PK, Section 10PL, Section 10PM, Section 10PN, Section 10PO, Section 10PP, Section 10PQ, Section 10PR, Section 10PS, Section 10PT, Section 10PU, Section 10PV, Section 10PW, Section 10PX, Section 10PY, Section 10PZ, Section 10QA, Section 10QB, Section 10QC, Section 10QD, Section 10QE, Section 10QF, Section 10QG, Section 10QH, Section 10QI, Section 10QJ, Section 10QK, Section 10QL, Section 10QM, Section 10QN, Section 10QO, Section 10QP, Section 10QQ, Section 10QR, Section 10QS, Section 10QT, Section 10QU, Section 10QV, Section 10QW, Section 10QX, Section 10QY, Section 10QZ, Section 10RA, Section 10RB, Section 10RC, Section 10RD, Section 10RE, Section 10RF, Section 10RG, Section 10RH, Section 10RI, Section 10RJ, Section 10RK, Section 10RL, Section 10RM, Section 10RN, Section 10RO, Section 10RP, Section 10RQ, Section 10RR, Section 10RS, Section 10RT, Section 10RU, Section 10RV, Section 10RW, Section 10RX, Section 10RY, Section 10RZ, Section 10SA, Section 10SB, Section 10SC, Section 10SD, Section 10SE, Section 10SF, Section 10SG, Section 10SH, Section 10SI, Section 10SJ, Section 10SK, Section 10SL, Section 10SM, Section 10SN, Section 10SO, Section 10SP, Section 10SQ, Section 10SR, Section 10SS, Section 10ST, Section 10SU, Section 10SV, Section 10SW, Section 10SX, Section 10SY, Section 10SZ, Section 10TA, Section 10TB, Section 10TC, Section 10TD, Section 10TE, Section 10TF, Section 10TG, Section 10TH, Section 10TI, Section 10TJ, Section 10TK, Section 10TL, Section 10TM, Section 10TN, Section 10TO, Section 10TP, Section 10TQ, Section 10TR, Section 10TS, Section 10TT, Section 10TU, Section 10TV, Section 10TW, Section 10TX, Section 10TY, Section 10TZ, Section 10UA, Section 10UB, Section 10UC, Section 10UD, Section 10UE, Section 10UF, Section 10UG, Section 10UH, Section 10UI, Section 10UJ, Section 10UK, Section 10UL, Section 10UM, Section 10UN, Section 10UO, Section 10UP, Section 10UQ, Section 10UR, Section 10US, Section 10UT, Section 10UU, Section 10UV, Section 10UW, Section 10UX, Section 10UY, Section 10UZ, Section 10VA, Section 10VB, Section 10VC, Section 10VD, Section 10VE, Section 10VF, Section 10VG, Section 10VH, Section 10VI, Section 10VJ, Section 10VK, Section 10VL, Section 10VM, Section 10VN, Section 10VO, Section 10VP, Section 10VQ, Section 10VR, Section 10VS, Section 10VT, Section 10VU, Section 10VV, Section 10VW, Section 10VX, Section 10VY, Section 10VZ, Section 10WA, Section 10WB, Section 10WC, Section 10WD, Section 10WE, Section 10WF, Section 10WG, Section 10WH, Section 10WI, Section 10WJ, Section 10WK, Section 10WL, Section 10WM, Section 10WN, Section 10WO, Section 10WP, Section 10WQ, Section 10WR, Section 10WS, Section 10WT, Section 10WU, Section 10WV, Section 10WW, Section 10WX, Section 10WY, Section 10WZ, Section 10XA, Section 10XB, Section 10XC, Section 10XD, Section 10XE, Section 10XF, Section 10XG, Section 10XH, Section 10XI, Section 10XJ, Section 10XK, Section 10XL, Section 10XM, Section 10XN, Section 10XO, Section 10XP, Section 10XQ, Section 10XR, Section 10XS, Section 10XT, Section 10XU, Section 10XV, Section 10XW, Section 10XX, Section 10XY, Section 10XZ, Section 10YA, Section 10YB, Section 10YC, Section 10YD, Section 10YE, Section 10YF, Section 10YG, Section 10YH, Section 10YI, Section 10YJ, Section 10YK, Section 10YL, Section 10YM, Section 10YN, Section 10YO, Section 10YP, Section 10YQ, Section 10YR, Section 10YS, Section 10YT, Section 10YU, Section 10YV, Section 10YW, Section 10YX, Section 10YZ, Section 10ZA, Section 10ZB, Section 10ZC, Section 10ZD, Section 10ZE, Section 10ZF, Section 10ZG, Section 10ZH, Section 10ZI, Section 10ZJ, Section 10ZK, Section 10ZL, Section 10ZM, Section 10ZN, Section 10ZO, Section 10ZP, Section 10ZQ, Section 10ZR, Section 10ZS, Section 10ZT, Section 10ZU, Section 10ZV, Section 10ZW, Section 10ZX, Section 10ZY, Section 10ZZ

■ The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company (i.e., D-147, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020). The attendees of the members attending through VCOAVM shall be counted for the purpose of reckoning the Quorum at the meeting.

The Company has sent the Notice of EGM, through electronic mode (i.e. email) to the shareholders whose e-mail addresses were registered with the Company/Skyline Financial Services Private Limited. Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participants as on Saturday, 11th January 2025 in accordance with Section 10, Section 10A, Section 10B, Section 10C, Section 10D, Section 10E, Section 10F, Section 10G, Section 10H, Section 10I, Section 10J, Section 10K, Section 10L, Section 10M, Section 10N, Section 10O, Section 10P, Section 10Q, Section 10R, Section 10S

